

प्रेस विज्ञप्ति

भाषा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में ओरियन्टेशन कार्यक्रम का आरंभ

के एम सी भाषा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आयोजित किये जा रहे पाँच दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम (अभिविन्यास सत्र) के प्रथम दिन डॉ कौशल त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर, भास्कर इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से मीडिया क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिये की जाने वाली तैयारियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तकनीकी युग की पत्रकारिता में भाषा की पकड़ साथ साथ सॉफ्टवेयर और ग्राफ़िक की जानकारी होना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लगातार बदलते मीडिया कंजम्प्शन पैटर्न को समझ कर कॉन्टेंट तैयार करना मीडिया का अहम पहलू है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को हाउस जरनल, न्यूज़ बुलेटिन, ब्लागिंग, यूट्यूब चैनल एवं अन्य के माध्यम से लगातार लिखने और बोलने का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया तथा शॉर्ट वीडियो मेकिंग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी दी।

दूसरे सत्र में काजल शर्मा, उप समाचार संपादक, हिंदुस्तान डिजिटल ने विद्यार्थियों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अवसरों तथा चुनौतियों के विषय पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनके करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई, लेकिन उन्होंने डिजिटल मीडिया की आवश्यकता को समझा और उसको सीखा और आज वो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अलग मुकाम स्थापित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मंत्र लगातार सीखते रहना है। उन्होंने बताया कि एक फोटो 34 अलग अलग स्टोरी तैयार की जा सकती है बस उसके लिए सही विजन का होना आवश्यक है। अपने वक्तव्य में उन्होंने डिजिटल मीडिया में लगातार हो रहे परिवर्तन और मेंटावर्स की भी चर्चा की। दोनों सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए गए।

पहले दिन के कार्यक्रम का संचालन डॉ तनु डंग, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने किया। इस कार्यक्रम की समन्वयक डॉ रुचिता सुजाय चौधरी, विषय प्रभारी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग रही। कार्यक्रम में विभाग के विद्यार्थियों के अलावा डॉ सैयद काजिम रिज़वी, डॉ शचीन्द्र शेखर एवं डॉ मोहम्मद नसीब उपस्थित रहे।

डॉ तनु डंग

मीडिया प्रभारी

केएमसी भाषा विश्वविद्यालय